

Reg. Office Address:
Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005GOI132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

HPIL/BS/Stx/2022-23

Dated: 04.08.2022

To,
Manager,
Listing Department
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001

To,
Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block,
Bandra Complex, Bandra (E),
Mumbai -400 051

Script Code: 543242

Symbol: HEMIPROP

Sub: Newspaper Publication

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2022, published today i.e August 04, 2022 in the newspaper namely, Financial Express(English) and Jansatta (For Hindi).

This is for your information and records

Thanking you,

For *Hemisphere Properties India Limited*



Lubna
Company Secretary & Compliance Officer

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 07-09-2022
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana>
CNR NO: PBLD03-049143-2019
Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Rama Devi
Publication Issued To: Rama Devi
Address- W/o Anil Kumar R/o Haripur Jalandhar Sahawal Fazabad UP 224001
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtdelhi.gov.in/tra/district_notice&dist=ct:ludhiana JMJC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 07-09-2022
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana>
CNR NO: PBLD03-049143-2019
Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Sanjeev Kumar
Publication Issued To: Sanjeev Kumar
Address- So Rajendra Singh Banwar Fazabad Kumarganj U.P. 224229
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtdelhi.gov.in/tra/district_notice&dist=ct:ludhiana JMJC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court Of Ms. Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 07-09-2022
next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana>
CNR NO: PBLD03-049134-2019
Kotak Mahindra Bank Limited
Vs
Deepak Prakash Pandey
Publication Issued To: Deepak Prakash Pandey Son Of Not Known Address- R/o Purandri Dewari Aamghat Mirzapur 231001
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtdelhi.gov.in/tra/district_notice&dist=ct:ludhiana JMJC Ludhiana

कानून न. आईएनसी-25ए
सार्वजनिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केतव्य निदेशक, निम्नलिखित मामलों में इस्तेमाल करने के लिए नई दिल्ली-110015, के मामले में:
आरंभिक
एतदन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंड सक्कर को आवेदन की इच्छुक है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन को प्रस्तावित करने के लिए कंपनी को सक्षम करने में 25 जुलाई, 2022 को वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में परिवर्तन की इच्छुक है।
कोई व्यक्ति जिसकी अभिलेखि कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन/विधिति से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह अपनी अभिलेखि की प्रतिलिपि और विवरण के अभाव को यदि कोई है, को समझे हुए आवेदनकर्ता/कंपनी को नोटिस दिये जाने के बाद प्रतीति प्राप्त करने में इच्छुक है।
यदि किसी भी व्यक्ति को इस मूलक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अद्योहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।
थाना: जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली
DP/936/SHD/2022 फोन: 7065036031, 9873322997

Lemon Tree Hotels Limited
(CIN:L74899DL1992PLC049022)
Regd. Off.: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District New Delhi -110037 | Tel.: +91-11-4605 0101 Fax: +91-11-4605 0110 | Email: sectdept@lemontreehotels.com www.lemontreehotels.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022
(₹ In Lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income	19,229.11	12,716.54	4,428.01	41,627.00
Net profit/(Loss) before tax	2,070.21	(3,942.90)	(6,734.89)	(14,459.23)
Net profit/(Loss) after taxes and Non-controlling interest	1,385.16	(2,462.13)	(4,012.03)	(8,743.39)
Total comprehensive Income/ (loss) for the year/period after Non-controlling interest	1,392.53	(2,437.01)	(4,011.69)	(8,717.22)
Paid-up equity share capital (face value ₹10 per share)	79,128.87	79,081.33	79,042.14	79,081.33
Other equity(as shown in the Audited Balance Sheet)				60,806.55
Earning/Loss per share (face value of ₹ 10 each) (EPS for quarter not annualised)				
(A) Basic	0.18	(0.31)	(0.51)	(1.11)
(B) Diluted	0.18	(0.31)	(0.51)	(1.11)

Notes:
1. The results for the quarter are not indicative of a full year's working due to the seasonal nature of the Indian Hotel Industry.
2. The consolidated unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on August 2, 2022.
3. Key standalone Financial Results Information:

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income	6,546.94	3,918.40	1,295.35	13,217.41
Profit/(loss) before tax	1,848.46	(367.24)	(1,780.06)	(2,260.76)
Net profit/(loss) after tax	1,311.34	(263.02)	(1,260.10)	(1,605.78)
Total comprehensive income/(loss)	1,312.49	(255.92)	(1,260.94)	(1,601.18)

4. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited results is available on the Stock exchanges website, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.lemontreehotels.com.

By order of the Board for Lemon Tree Hotels Limited
Sd/-
Patanjali G. Keswani
(Chairman & Managing Director)
DIN: 00002974

Place: Udaipur
Date: August 2, 2022

zomato
जोमाटो लिमिटेड
(पूर्व में जोमाटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मशहूर)
सीआईएन : L93030DL2010PLC198141
पंजीकृत कार्यालय : नू तेल 12 ए. 94 मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, भारत
वेबसाइट : www.zomato.com, ई-मेल : companysecretary@zomato.com
फोन नंबर : 011-40592373

जोमाटो लिमिटेड की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग("वीसी")/अथ अडिओ वीडियो मीन्स("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित निर्धारित 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") के संबंध में सूचना

सदस्यगण कृपया नोट करें कि कम्पनी की 12वीं एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से मंगलवार, 30 अगस्त, 2022 को शाम 04:00 बजे (आईएसटी), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों और तदधीन नियमों (अधिनियम) के साथ पडेल कांफॉरेट मामलों के मंत्रालय (अर्थात्) द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 और इस संबंध में जारी किए गए अन्य सर्कुलर तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (बीएच) (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अधिकांश) विनियमावली, 2015 के साथ पडेल सेबी सर्कुलर नंबर SEBIHO/CFOICMD2/CIRPI/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 तथा सेबी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अन्य सर्कुलर (सामूहिक रूप से, "अन्य सर्कुलर") के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध कार्य (कार्य) के निष्पान हेतु ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जागीरी वीसी / ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत सूचना गणपूर्ति की गणना के लिए की जागीरी।

उपरोक्त सर्कुलर के अनुपालन में, एजीएम की सूचना की प्रतियां वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित, उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनका नाम कुख्यात, 03 अगस्त, 2022 को कार्य समाप्ति के समय पर सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद होंगे तथा जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास उपलब्ध/पंजीबद्ध है। उक्त कम्पनी की वेबसाइट www.zomato.com, स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर और लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट https://registerlinktime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की मॉडिफिकेड प्रतियां प्राप्त करने की इच्छुक कोई भी सदस्य आरटीए की विशाल दिखित linktime.co.in पर तथा कम्पनी को companysecretary@zomato.com पर लिख सकता है।

कम्पनी के सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर मौलिक रूप में धारित किए हुए हैं और जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, आरटीए की वेबसाइट www.linktime.co.in पर लिंक : https://linktime.co.in/emaileg/email_register.html में इन्वेस्टर सर्विसेज टैब पर ई-मेल पता पंजीकृत करवा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाम, फोनियो नंबर, प्रमाणपत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करें और पीडीएफ या जीपीडीसी प्रारूप (1 एम्बी तक) में शेयर प्रमाणपत्र की छवि भी अपलोड करें। अपेक्षित विवरण जमा करने पर, शेयरधारक को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे सत्यापन के लिए लिंक में दर्ज करना होगा।

कंपनी के सदस्य, जो कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप से धारित किये हुए हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, अस्थायी रूप से आरटीए के साथ अपने ईमेल पते उक्त लिंक पर लिंक करके पंजीकृत करवा सकते हैं। यह सूचना दिया जाता है कि ई-मेल पते के सवादी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपने संबंधित DPs के साथ DP द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने ईमेल पते पंजीकृत करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कोई सदस्य आरटीए को mt.helpdesk@linktime.co.in पर ई-मेल भेज सकता है।

एजीएम की सूचना में रिपोर्ट ई-वोटिंग, मौलिक अथवा डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि के संबंध में अनुरोध सविस्तर दिए गए हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना और विशेष रूप से एजीएम से जुड़ने संबंधी अनुरोध, रिपोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि ध्यानपूर्वक पढ़ें।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से
जोमाटो लिमिटेड
(पूर्व में जोमाटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मशहूर)
हस्ता./-
दीपेन्द्र गौयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीआईएन : 02613583
स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 04 अगस्त, 2022

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक मूलक व्यक्ति जिसका नाम : नामालूम, पिता : नामालूम, पता: नामालूम, उम्र : 52 साल, कद : 5 फुट 5 इंच, रंग : गौर, लिंग : पुरुष, शरीर : सामान्य, चेहरा: गोल, पहनावा : नीले रंग का टी-शर्ट और काले रंग का लोअर जो दिनांक 31.07.2022 को एम्पलसी सं. वीडी0182/22 पर जीटीबी अस्पताल में बेहोशी की हालत में दाखिल हुआ था जिसकी ईजाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में डी. डी. नं. 82-ए, दिनांक 31.07.2022 को थाना जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली में दर्ज है। पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस मूलक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस मूलक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अद्योहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना: जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली
DP/936/SHD/2022 फोन: 7065036031, 9873322997

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NUPUR RECYCLERS LIMITED
Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED
Regd. Office : Plot No. 5, KH 12/8, KH-12/9, KH-12, Arjun Gali, New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093
Corporate Office : Plot No. 03, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110092
CIN: L37100DL2019PLC344788 , Website: www.nupurrecyclers.com
Email: compliance@nupurrecyclers.com, Tel: +91-8882704751

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2022 (All Figures in Lacs Except EPS)

Sl. No.	Particular	Quarter ended		Year Ended
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	3,551.04	3,253.85	3,873.03
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	501.79	519.93	883.34
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	501.79	519.93	883.34
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	375.67	353.81	664.36
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	2,288.00	2,288.00	1.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,004.99
7	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)			
	Basic (in Rs.) (not annualised)	1.64	1.55	3.87
	Diluted (in Rs.) (not annualised)	1.64	1.55	3.87

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.nupurrecyclers.com.
2 Figures for the previous year/periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.

For NUPUR RECYCLERS LIMITED
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN - 01941985

Place : New Delhi
Date : August 03, 2022

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अंश
(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	167.92	-	-	-
कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(144.93)	(956.96)	(255.55)	(1863.86)
कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(144.93)	(956.96)	(255.55)	(1863.86)
कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(144.93)	(579.15)	(193.90)	(1486.05)
करों के बाद कुल व्यापक आय और गैर नियमित व्याज	(144.93)	(579.15)	(193.90)	(1486.05)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	28500	28500	28500	28500
मिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	-	-	-	-
प्रति शेयर आय (संचालन जारी रखने और बंद करने से)				
बेसिक:	(0.05)	(0.20)	(0.07)	(0.52)
दिल्यूटेड:	(0.05)	(0.20)	(0.07)	(0.52)

नोट्स:
1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 03.08.2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।
2. पुनर्मूल्यांकन अंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्गणनीय/पुनर्निर्मित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है और नकारात्मक अंकड़ों को हटकर में दिखाए गए हैं।
3. तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) / www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hpil.co.in) पर उपलब्ध है।

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
(डी. थारा)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 03, 2022

INTERGLOBE AVIATION LIMITED
CIN: L62100DL2004PLC129768
Registered Office: Upper Ground Floor, Thapar House, Gate No. 2, Western Wing, 124 Janpath, New Delhi - 110001, India
Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200
E-mail: investors@goindigo.in; Website: www.goindigo.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2022
(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter ended		Year ended	
		30 June 2022 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)	30 June 2021 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)
1	Total income from operations	130,188.07	82,074.61	31,702.51	266,565.25
2	Net Loss for the period (before Tax and /or Exceptional items)	(10,642.43)	(16,775.12)	(31,741.76)	(61,536.84)
3	Net Loss for the period before tax (after Exceptional items)	(10,642.43)	(16,775.12)	(31,741.76)	(61,536.84)
4	Net Loss for the period after tax (after Exceptional items)	(10,642.61)	(16,817.98)	(31,741.76)	(61,618.45)
5	Total Comprehensive Income / (loss) for the period [Comprising Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	(10,565.11)	(16,795.07)	(31,754.32)	(61,607.80)
6	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,852.55	3,852.55	3,849.10	3,852.55
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet				(63,733.17)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic (Rs.)	(27.64)	(43.66)	(82.47)	(160.01)
	Diluted (Rs.)	(27.64)	(43.66)	(82.47)	(160.01)

The information on unaudited standalone financial results are given below:
(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars	Standalone			
		Quarter ended		Year ended	
		30 June 2022 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)	30 June 2021 (Unaudited)	31 March 2022 (Audited)
1	Total income from operations	130,186.54	82,071.75	31,700.60	266,554.69
2	Net Loss for the period (before Tax and /or Exceptional items)	(10,654.23)	(16,797.90)	(31,792.65)	(61,710.25)
3	Net Loss for the period before tax (after Exceptional items)	(10,654.23)	(16,797.90)	(31,792.65)	(61,710.25)
4	Net Loss for the period after tax (after Exceptional items)	(10,654.23)	(16,797.90)	(31,792.65)	(61,710.25)
5	Total Comprehensive Income / (loss) for the period [Comprising Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	(10,574.00)	(16,759.90)	(31,802.27)	(61,680.60)
6	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,852.55	3,852.55	3,849.10	3,852.55
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet				(64,205.47)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic (Rs.)	(27.67)	(43.61)	(82.60)	(160.25)
	Diluted (Rs.)	(27.67)	(43.61)	(82.60)	(160.25)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter ended 30 June 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"). The full format of the unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter ended 30 June 2022 is available on the website of the Company www.goindigo.in and also at the website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com. The results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company and its subsidiary (namely "Agile Airport Services Private Limited") [the Company and its subsidiary together referred to as, "the Group"] pursuant to Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, who have issued an unmodified conclusion on the same.
2. The above results were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its respective meetings held on 3 August 2022.
3. Earnings per share is not annualized for the quarter ended 30 June 2022, 31 March 2022 and 30 June 2021.

For and on behalf of the Board of Directors of InterGlobe Aviation Limited
Sd/-
Ronojoy Dutta
Whole Time Director and Chief Executive Officer

Place : Gurugram
Date : 3 August 2022

Reg. Office Address:
Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005G01132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in Tel: 011-230621325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2022

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Total Income from operations (Net)	167.92	-	-	-
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (before Exceptional items)	(144.93)	(956.96)	(255.55)	(1863.86)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (after Exceptional items)	(144.93)	(956.96)	(255.55)	(1863.86)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities after Tax (after Exceptional items)	(144.93)	(579.15)	(193.90)	(1486.05)
Total Comprehensive income after taxes and Non-controlling Interest	(144.93)	(579.15)	(193.90)	(1486.05)
Paid up Equity Share Capital	28500	28500	28500	28500
Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-
Earnings per share (from continuing and discontinuing operations)				
Basic	(0.05)	(0.20)	(0.07)	(0.52)
Diluted	(0.05)	(0.20)	(0.07)	(0.52)

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 03.08.2022.
2. Comparative figures have been regrouped / recasted/ rearranged wherever deemed necessary to conform to current period classification and negative figures have been shown in bracket.
3. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/ www.fseindia.com) and Company's website (www.hpil.co.in).

For and on behalf of
Hemisphere Properties India Limited

Sd/-
Date: August 03, 2022
(Chairperson & Managing Director)

Gujarat State Investments Limited
Registered Office: 6th Floor, HK House, Ashram Road, Ahmedabad - 380009
CIN: U64990GJ1988SGC010307

Extracts of unaudited standalone financial results for quarter ended on June 30, 2022

(Rs. In Lakhs except Earnings Per Share)

Sr. No.	Particulars	Three Months Ended			Year Ended
		30-06-2022 (Reviewed)	31-03-2022 (Audited)	30-06-2021 (Reviewed)	31-03-2022 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	66.29	(44.62)	74.05	8,346.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	34.14	(185.76)	40.34	8,088.39
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	34.14	(185.76)	40.34	8,088.39
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	27.10	(1,158.32)	40.20	7,116.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	27.16	(1,158.22)	40.18	7,116.04
6	Paid up Share Capital	1,04,276.91	1,04,276.91	1,04,276.91	1,04,276.91
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet) as on 31.03.2022	-	-	-	58,991.00
8	Security Premium Account	-	-	-	-
9	Networth	1,68,495.09	1,68,467.92	1,66,188.78	1,68,467.92
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	5,38,500.00	5,38,500.00	5,38,500.00	5,38,500.00
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12	Capital Redemption Reserve	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
13	Debt Equity Ratio	3.20	3.20	3.24	3.20
14	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17	Earning per share of Rs. 10/- each				
	Basic (in Rs.)	0.00	(0.11)	0.00	0.68
	Diluted (in Rs.)	0.00	(0.11)	0.00	0.68

Notes : 1. The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial results were reviewed by the Audit Committee, and were approved by the Board of Directors, in their respective meetings held on August 3, 2022. This financial statement for the quarter ended have been reviewed by the Statutory Auditors of the company and have issued unmodified limited review report on the same. 2. The above results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down Indian Accounting Standards ('Ind AS') - 34 Interim Financial Reporting, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India. 3. The above Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended on June 30, 2022 are available on the website of NSE Limited (www.nseindia.com) and website of the company (www.gujsil.in). 4. Previous Period's Year's figures have been regrouped and reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of Board of Directors
Gujarat State Investments
Sd/-
Date : August 3, 2022
Managing Director

PNB GILTS LIMITED
CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Off: 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Ph: 011-23325759, 23325779; Fax No.: 011-23325751, 23325763
Email: pnbgilts@pnbgilts.com; Website: www.pnbgilts.com

NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of PNB Gilts Limited (Company) will be held on Friday, September 2, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through video conference (VC), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos. 14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020), 22/2020 (dated 15th June, 2020), 02/2021 (dated January 13, 2021), 20/2021 dated 8th December, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"/s), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2021-22 of the Company is being sent only by electronic mode to those members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 26th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. However, pursuant to SEBI circular, the hard copy of full annual report will be sent to those shareholders who request for the same. The aforesaid documents will also be available on the Company's website https://www.pnbgilts.com/investors-relations#annual_report and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and of National Securities Depository Limited (NSDL) website at https://www.evoting.nsdl.com.

The instructions for attending the AGM through VC and detailed manner of electronic voting is being provided in the Notice of AGM. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") and facility of e-voting system during the AGM ("e-voting") (collectively referred as "electronic voting") to eligible members as per applicable provisions on all the business items as set out in the Notice of AGM. The remote e-voting period commences on August 29, 2022 (09:00 A.M.) and ends on September 1, 2022 (05:00 P.M.). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 26, 2022, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at AGM through e-voting. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act. Members are requested to register their email addresses and bank account details for receipt of dividend. The process of registering the same is mentioned below:

In case, Physical Holding	Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Company's Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Ltd. The said forms and relevant provisions of SEBI circular (circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, as amended) are available on the Company's website at the link https://www.pnbgilts.com/downloads.
In case, Demat Holding	Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report 2021-22 along with AGM Notice. For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2021-22, members may write to m.kochar@pnbgilts.com

The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility in case of any queries in connection with evoting or attending the meeting through VC, members may contact -

For	Name	Email	Address	Contact No.
Electronic voting facility / VC facility	Ms. Pallavi Mhatre	pallavi@nsdl.co.in	Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013	+91 22 24994545
	NSDL	evoting@nsdl.co.in		1800-222-990

The Company has fixed the Friday, August 26, 2022 as the 'Record Date' for determining the entitlement of members to receive the Final Dividend for the financial year 2021-22, if declared at the 26th AGM of the Company. It may be noted that Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act, 2020 mandates that dividends paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend at the prescribed tax rates. Members are therefore requested to refer detailed instructions given in the Notice of AGM and submit tax related documents/declarations at the company's email address m.kochar@pnbgilts.com by August 26, 2022.

By Order of the Board
Sd/-
Date: 03.08.2022
Place: New Delhi
Company Secretary

Secure your future with J.K. Fenner

J.K. Fenner (India) Limited

Regd. Office: 3, Madurai-Melakkal Road, Madurai 625 016 (Tamil Nadu)
Admin. Office: Khivraj Complex-II, 5th Floor, 480 Anna Salai, Nandanam, Chennai 600 035
E-mail: fd@jkfenner.com, Website: www.jkfenner.com; CIN: U24231TN1992PLC062306
Tel No.: 0452 4283822 & 4283826; Fax: 0452 4283831

INVITES FIXED DEPOSITS

CREDIT RATING
CRISIL Limited
FAA/Stable

Period	Scheme 'A' (Non-cumulative)		Scheme 'B' (Cumulative)		
	Rate of Interest Per Annum (%) Payable Annually	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually	Minimum Amount of Deposit (₹)	Amount Payable on Maturity (₹)	Effective Yield per annum (%)
1 Year	6.75	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75
2 Years	7.25	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51
3 Years	7.35	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90

0.50% additional interest to senior citizens (above 60 years), employees & shareholders - max 0.50%.
Minimum amount of Deposit: Deposits shall be accepted for a minimum amount of ₹ 1,00,000/- and in multiples of ₹ 50,000/- thereafter for both the schemes.

Interest Payable:
Scheme 'A' (Non-cumulative) : Interest will be paid annually and on maturity.
Scheme 'B' (Cumulative) : Interest will be compounded annually and paid on maturity.

f. Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid:
The Scheme will open from the date, following the day of the Annual General Meeting to be held in the year 2022, subject to regulatory provisions as may be applicable. This circular is valid upto the date of the AGM to be held in the year 2023 or within six months from the close of the financial year 2022-23, whichever is earlier.

g. Reasons or objects of raising the deposits: To support business operations.

h. Credit rating obtained:
(i) Name of the Credit Rating Agencies : CRISIL Limited
(ii) Rating obtained : FAA/Stable
(iii) Meaning of the rating obtained : Indicates that the degree of safety regarding timely payment of interest and principal is Strong.
(iv) Date on which rating was obtained : June 09, 2021

i. Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any: Not applicable.

j. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons: None.

FORM DPT-1
CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS
(Pursuant to section 73(2)(a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014)
The circular or circular in the form of advertisement shall contain the following:

1. GENERAL INFORMATION

a. Name, address, website and other contact details of the Company:
J.K. Fenner (India) Limited, 3, Madurai-Melakkal Road, Madurai 625 016, Tamil Nadu. Website: www.jkfenner.com; E-mail: fd@jkfenner.com, Tel No.: 0452-4283822/ 4283826; Fax: 0452-4283831

b. Date of incorporation of the company: The Company was incorporated on 9th April 1992 as a Private Company and was converted into Public Company on 22nd April 1997.

c. Business carried on by the Company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any:
By the Company: The Company is engaged in manufacture and sale of Power Transmission Belts, Oil seals, Hoses & Moulded Rubber Products, and, in designing, supplying and installing Mechanical Power Transmission Drives & Gear Boxes.
By its Subsidiaries: The Company has five subsidiary companies. The names and their respective business are as follows: (1) Acorn Engineering Limited- Manufacturing Engineering Materials (2) Southern Spinners and Processors Ltd.-Manufacturer/ sale of Cotton Yarn, Polyester Cotton Fabrics, etc. (3) Modern Cotton Yarn Spinners Ltd.-Manufacturer/ sale of Cotton Yarn, Polyester Cotton Fabrics, etc. (4) Divyashree Company Private Limited-General merchants, traders, commission agents, distributors etc. (5) JFK Americas Inc., USA - Trading. All the above subsidiaries are wholly owned Company, except Divyashree Company Private Limited.

Units & Offices: The Company has manufacturing units at Madurai, Nilakottai, Sriperumbudur, Patancheru and Pashamalaram. It has established Sales Offices at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Indore, Jaipur, Kanpur, Kochi, Kolkata, Ludhiana, Madurai, Mumbai, New Delhi and Hyderabad.

Deposits are accepted at these offices:

AHMEDABAD : 602, Wall Street Annex, Opp. Orient Club, Near Gujarat College Crossing, Ellis Bridge, Ahmedabad-380 006. 079-26408572, 079-26408573

CHENNAI : Khivraj Complex-II, 5th Floor, 480 Anna Salai, Nandanam, Chennai - 600 035. 044-43994600, 044-43994666

MADURAI : 3, Madurai-Melakkal Road, Kochadai, Madurai - 625016. 0452-4283822, 0452-4283822

NAVI MUMBAI : 105, Gauri Complex, Sector-11, CBD-Belapur, Navi Mumbai - 400 614. 022-27560985, 022-27580236

HYDERABAD : Plot No.35, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad 500 037. 040-23071126, 040-23071139

KOLKATA : Trinity Tower, 3rd Floor, Room No.3D, 226/1, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020. 033-40031470

NEW DELHI : Delite Theatre Building, 2nd Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002. 011-23243113, 011-23243153

(d) Brief particulars of the Management of the Company:
The Company is managed by the Managing Director and the President & Director under the superintendence, control and direction of the Board of Directors.

(e) Name, address, DIN and occupation of the Directors:

NAME	ADDRESS	DIN	OCCUPATION
Dr.Raghupati Singhania Chairman	Patriot House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002	00036129	Industrialist
Shri H V Lodha	14, Government Place, East Kolkata 700 069	00394094	Chartered Accountant
Shri Harsh Pati Singhania	Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002	00086742	Industrialist
Shri Rahul C Kirloskar	Lakaki Compound, Model Colony, Shivaji Nagar, Pune 411 016	00007319	Industrialist
Shri Bakul Jain	'Nirmal', 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021	00380256	Industrialist
Smt.Mamta Singhania Managing Director	Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002	01667668	Business
Shri Surendra Malhotra	Patriot House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002	00271508	Business Executive
Shri Vikrampati Singhania Managing Director	Patriot House, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002	00040659	Industrialist
Shri Nagaraju Srirama President & Director	Khivraj Complex-II, 5th Floor, 480 Anna Salai, Nandanam, Chennai 600 035	02473218	Service

f. Management's perception of risk factors; The demand for Power Transmission Belts, Oil seals, Hoses & Moulded Rubber Products is dependent upon many external factors like economic growth and growth of industries like Automobile, Infrastructure etc. Any slow down in these activities can affect the Company. Similarly, Government policies for economy in general and manufacture industry in particular can also impact the demand of the Company's products as well as profitability.

g. Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -
i) Statutory dues - None, the Company is generally regular in depositing statutory dues with the appropriate authorities, other than those which are sub-judice.
ii) Debentures and interest thereon - None.
iii) Loan from any bank or financial institution and interest thereon - None.

2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

a. Date of passing of board resolution: 28th April 2022

b. Date of passing of resolution in the general meeting authorising the invitation of such deposits: At the Annual General Meeting (AGM) held on 25.09.2015.

c. Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured: Unsecured.

d. Amount which the Company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement; and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months:
The amount which the Company can raise by way of deposits as per the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder: (₹ in Lacs)

(i) From Members:	10% of the aggregate of the paid-up share capital, free reserves and securities premium account	7170.72
(ii) Other Deposits:	25% of the aggregate of the paid-up share capital, free reserves and securities premium account	17926.80
TOTAL		25097.52
Amount of the aggregate of deposit actually held on 31/03/2022		1962.30
Amount of deposit held on the date of issue of circular or advertisement		1759.50
Amount of deposit proposed to be raised		25097.52
Amount of deposit repayable within the next twelve months		1398.90

e. Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;

Period	Scheme 'A' (Non-cumulative)		Scheme 'B' (Cumulative)		
	Rate of Interest Per Annum (%) Payable Annually	Rate of Interest Per Annum (%) Compounded Annually	Minimum Amount of Deposit (₹)	Amount Payable on Maturity (₹)	Effective Yield per annum (%)
1 Year	6.75	6.75	1,00,000	1,06,750	6.75
2 Years	7.25	7.25	1,00,000	1,15,026	7.51
3 Years	7.35	7.35	1,00,000	1,23,710	7.90

0.50% additional interest to senior citizens (above 60 years), employees & shareholders-max.0.50%.
Interest Payable:
Scheme 'A' (Non-cumulative) : Interest will be paid annually and on maturity.
Scheme 'B' (Cumulative) : Interest will be compounded annually and paid on maturity.

Mode of Payment and Repayment: By Cheque / NEFT/RTGS.

JK Pioneer Fenner TOP DRIVE Ecodrive PLUS

Fenner • JK Pioneer • JK Transpower • Ecodrive Plus • Eswan Aerators • Top Drive • PowerTran • Toughnut Gear • Vcool Pulley • Fenner • JK Pioneer • JK Transpower

3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

a. Amount Outstanding : ₹ 1962.30 Lacs as on 31st March 2022
b. Date of acceptance : On or before 31st March 2022
c. Total amount accepted : ₹ 1962.30 Lacs (Amount accepted and remaining outstanding)
d. Rate of interest*:

	1 Year	2 Years	3 Years
From 25.01.2021	6.75% p.a.	7.25% p.a.	7.35% p.a.
From 01.09.2017 to 24.01.2021	8.00% p.a.	8.25% p.a.	8.35% p.a.

*0.50% additional interest to senior citizens (above 60 years), employees and shareholders - max 0.50%.

e. Total number of depositors: 911
f. Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any including number of depositors, amount and duration of default involved: None.
g. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits: Not Applicable.

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

(a) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement:

Financial Year ended	Profit Before Tax	Profit After Tax
31.3.2020	8706.70	6498.17
31.3.2021	9420.52	6595.75
31.3.2022	13627.86	9562.61

(b) Dividends declared by the Company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid)

Financial Year Ended	Dividend on Equity Shares		Interest Coverage Ratio
	(%)	₹ in lacs	
31.3.2020	500%	1241.53	5.73
31.3.2021	500%	1241.53	7.52
31.3.2022	650%	1614.00	10.56

Excluding Dividend Distribution Tax (DDT) of ₹ 255.20 lacs for FY2019-20. Dividend Distribution Tax is not applicable on Corporates from 1st April 2020 onwards.

(c) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement:

Equity and Liabilities	As at #			Assets		
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Equity Share Capital	248.31	248.31	248.31	Property, Plant and Equipment	30251.00	30325.74
Other Equity	77241.89	67727.82	61829.15	Capital Work-in-progress	2889.64	2871.91
Non-current Liabilities				Investment Property	28.68	10.28
-Financial Liabilities	19974.42	22314.93	24498.02	Intangible Assets	127.84	115.37
-Others	3041.98	2642.49	2627.07	Intangible Assets under Development	-	4.18
Current Liabilities				Non-current Assets		
-Financial Liabilities	22337.82	19670.70	20794.55	-Financial Assets	33851.53	38024.78
-Others	7173.33	6007.73	2713.83	-Others	998.14	717.24
Total	130017.75	118611.98	112710.93	Current Assets	35258.55	26994.47
				-Financial Assets	19548.01	19181.05
				-Others	26612.37	19548.01
				Total	130017.75	